

## स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, लखनऊ में इनोवेशन कार्निवल का समापन

लखनऊ : जून 09, 2022



## स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, लखनऊ में इनोवेशन कार्निवल का समापन

स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, लखनऊ के सर सी .वी रमन रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर के तत्वाधान में इनोवेशन कार्निवल जो दिनांक 4 जून 2022 से लगाया गया था का समापन 8 जून 2022 को सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री शरद सिंह द्वारा समापन की घोषणा की गयी और उनके द्वारा प्रदेश व देश के विकास में एस.एम.एस. के छात्र-छात्राओं द्वारा तैयार किये जा रहे नवाचारों व स्टार्ट-अप के सतत् प्रयासों की सराहना की ।

उक्त इनोवेशन कार्निवल का उद्घाटन उत्तर-प्रदेश के मुख्य-सचिव , श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी व शासन तथा विश्वविद्यालय के विशिष्ट अतिथियों में प्रोफ. प्रदीप कुमार मिश्रा , वीसी, एकेटीयू, डा. हेमंत थाकरे , राष्ट्रीय अध्यक्ष , ईस्टीट्युशन ओफ इन्जीनियर्स , कोलकता, श्री अनिल कुमार , सचिव(सचिव शहरी विकास) , श्री अजय कुमार , सदस्य-सचिव, उत्तर-प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आदि शामिल हुये ।

उक्त अवसर पर, मुख्य अतिथि श्री दुर्गा शंकर मिश्रा ने बताया कि अविष्कारों को देखने के पश्चात मैं कह सकता हूँ कि छात्रों व उनके शिक्षकों ने सराहनीय प्रयास किए हैं। अविष्कारों में से एक एयर-ओ-बाइक है , जो न केवल वायु प्रदूषण को कम करती है बल्कि प्रेशराइज्ड हवा की क्षमता का उपयोग करता है। उसके अतिरिक्त सोलर इलेक्ट्रिक साइकिल ,सोलर इलेक्ट्रिक स्ट्रीट कार , सोलर कूलर,सोलर पॉवर्ड रेफ्रिजरेटर आदि कई उल्लेखनीय अविष्कारों को इस आयोजन में प्रदर्शित किया गया था। दरअसल आम नागरिकों के जीवन को आसान करना इनोवेशन की मुख्य चुनौती है। एक छोटी-सी सोच मानव जीवन को आसान करने में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है।

हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रंथों में बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्यों को लिख रखा है। मैं विद्यार्थियों से कहूंगा कि उन पर रिसर्च अवश्य करें। मुझे स्कूल ऑफ़ मैनेजमेंट साइंसेज , लखनऊ के सर सी वी रमन रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर के इनोवेशन कार्निवल में शामिल होकर बहुत अच्छा लगा । अंत में , कहूंगा कि महानिदेशक (तकनीकी) डॉ. भरत राज सिंह , संस्थान में किये जा रहे इनोवेशन्स के मुख्य प्रणेता हैं। डॉ सिंह द्वारा प्राणिक ऊर्जा- चिकित्सीय उपचार, एक पारम्परिक चिकित्सा पद्धति विषय पर लिखित पुस्तक का अनावरण करने का मुझे सुअवसर भी मिला।

प्रोफ. पी.के. मिश्रा , कुलपति , ए.के.टी.यू. ने इस प्रकार के आयोजनों को विश्व विद्यालय स्तर पर कराने व पुरस्कृत करने का आश्वासन दिया तथा डा. हेमन्त थाकरे ने स्कूल ऑफ़ मैनेजमेंट साइंसेज, लखनऊ को नैक में A++ लाने की शुभकमानाये दी ।

उक्त अवसर पर एस.एम.एस. के निदेशक , प्रोफ. मनोज मेहोत्रा , मुख्यमहाप्रबंधक, डा. जगदीश सिंह व , सह-निदेशक, डा. धर्मन्द्र सिंह , तथा डीन –छात्र कल्याण , प्रबंधन, व ईजीनियरिंग आदि मौजूद रहे और छात्रो व कार्निवाल से सम्बद्ध अध्यापको का उत्साह वर्धन किया ।

डॉ. भरत राज सिंह,  
महानिदेशक (तकनीकी),  
स्कूल ऑफ़ मैनेजमेंट साइंसेज, लखनऊ-226501  
ईमेल : brsinghko@yahoo.com

---

<https://ghoomtaaina.in/conclusion-of-innovation-carnival-in-school-of-management-sciences-lucknow/>